

Hello Friends

आज हमारी पहली class है। Class को start करने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसे आप इस तरह से समझिये कि noun या tenses किसी बच्चे की class 5th में भी पढ़ाया जाता है, class 10th में भी और competitive exams की preparation करते समय भी। Rules नहीं बदलते या इनमें कोई नई चीज़ें add नहीं होती बल्कि हर level में इनके प्रयोग करने का तरीका या इनके usages बदल जाते हैं। या ये कहें कि उनका level बढ़ जाता है।

इसी तरह इस course के कुछ topics आपने Elementary Grammar course में भी पढ़े होंगे पर यहाँ पर हम उन्हें एक नए तरीके से सीखेंगे।

Tenses किसी भी language का एक बहुत ही important part हैं। इसके बिना न तो grammar पूरी है और ना ही आपकी Spoken English अच्छी हो सकती है। Tenses किसी भी वाक्य का अर्थ बदल सकते हैं। आज के session में हम Present tense के सभी types के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में जानेंगे कि उनमें अंतर क्या है जिससे बोलते समय आप सही tense का प्रयोग करें और आपकी इंग्लिश प्रभावी बनें -

सबसे पहले हम जल्दी से सभी tenses को एक एक करके revise करेंगे और फिर उनके बीच का अंतर जानेंगे जिससे कि आप बोलते समय confuse ना हो और सही tense का प्रयोग सही जगह पर कर सकें। आज की class में हम Present Tense के बारे में जानेंगे -

**(Detail में हम अभी नहीं देखेंगे, detail में जानने के लिए आप हमारा Basic Grammar for Spoken English course में देख सकते हैं )**

### **Simple Present Tense/ Present Indefinite tense**

Present Indefinite tense को simple present tense भी कहा जाता है | **Present indefinite tense में हिन्दी वाक्यों के अन्त में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि आता है।**

### **Sentence Structure**

#### **Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)**

Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + ("s" या "es" Singular Subject के साथ) + Object (3rd Person) Singular का मतलब He / She, It, particular Name है।)

#### **Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)**

Subject (कर्ता) + do / does + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object  
नकारात्मक वाक्य में जब हम does not का प्रयोग करते हैं, उस समय verb की सिर्फ 1st Form ही लगाते हैं, s/es नहीं लगाते।

#### **Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)**

Do/ Does + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

Question word + do/does + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

#### **Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)**

Do/ Does + Subject (कर्ता) + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

## **Present Continuous Tense**

वर्तमान काल में कोई क्रिया जारी है, यह अर्थ व्यक्त करने के लिए इस tense का प्रयोग होता है। हिंदी में इन वाक्यों के अंत में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे और उसके बाद में हूँ, है, हैं का प्रयोग होता है।

जब भी हम इस tense का प्रयोग करते हैं तो यह बताता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अन्य शब्दों में जब आपको ऐसी घटना के बारे में बात करनी हो जो वर्तमान समय में चालू है तो आप इस tense का प्रयोग करेंगे।

**कुछ बातें याद रखने योग्य हैं -**

1. इस tense में helping verb (सहायक क्रिया) is/ am/ are होती है।
2. is/ am/ are के बाद verb के साथ ing का प्रयोग होता है।
3. अगर subject (कर्ता) singular है तो is, I के साथ am और यदि subject plural (बहुवचन) है तो are का प्रयोग होता है।

## **Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)**

Subject (कर्ता) + is/ am/ are + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object

## **Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)**

Subject (कर्ता) + is/ am/ are + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object

## **Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)**

Is/ Am/ Are + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

Wh word + is/ am/ are + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

## **Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)**

Is/ Am/ Are + Subject (कर्ता) + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

## **Present Simple और Present Continuous में difference**

ये सब rules तो हम पहले से ही सीखते आ रहे हैं और हमें यह अब याद भी है। Problem तब शुरू होती है जब हमें यह ध्यान नहीं रहता कि कब हमें कौनसा tense use करना है। Especially बोलते समय हम tenses के use में confuse हो जाते हैं। यही confusion हमारी spoken english को या written english को खराब कर देता है। सबसे पहले देखते हैं कि Present Simple और Present Continuous में क्या difference है और कब इनका use किया जाए -

**1) बोलने से पहले एक बार आप सोचे कि आपको क्या बोलना है। आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं कि कोई घटना या action कुछ सामान्य रूप से होता है या कुछ अभी हो रहा है? संक्षिप्त में - In general or right now?**

जैसे अभी coronavirus के बारे में बहुत बातें हो रही हैं तो अगर आप कहना चाहते

हैं की लोग अक्सर cold और cough से इस season में परेशान होते हैं तो यह बात सामान्य है, एक general बात है। इस समय आप Simple Present Tense का use करेंगे जैसे -

Normally people suffer from cold and cough in this season. इस मौसम में आमतौर पर लोग सर्दी और खांसी से पीड़ित होते हैं।

**पर अगर आप particularly coronavirus के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी के time में हो रहा है (RIGHT NOW) तो आप Present Continuous का use करेंगे जैसे -**

Right now people are suffering with coronavirus. अभी लोग कोरोनावायरस से पीड़ित हैं।

(यह बात अभी हो रही है पहले नहीं थी या भविष्य में भी एक समय तक ही रहेगी, हमेशा नहीं। इसलिए इस तरह की situation को बताने के लिए हम Present Continuous tense का use करेंगे। जबकि अगर आप पहले वाले

वाक्य को ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इस मौसम यानी जब भी मौसम बदलता है, लोगों को सर्दी जुकाम हो ही जाता है।)

**2) इसके अलावा जब आपको एक के बाद एक actions को बताना हो तब simple present tense का use करते हैं जैसे -**

First wash your hands, then touch the baby. पहले अपने हाथों को धो लें, फिर बच्चे को स्पर्श करें। अभी coronavirus के लिए यह instructions दिए जाते हैं कि पहले आप अपने हाथों को धोए और फिर किसी से हाथ मिलाये या उन्हें touch करें। तो यहाँ पर action एक के बाद एक हो रहे हैं इसलिए बात करते समय ऐसे वाक्यों के लिए आप simple present tense का use करेंगे।

**पर अगर actions एक साथ (at the same time) हो रहे हो तो????**

**इस समय आप use करेंगे Present Continuous tense का। जैसे -**

I am washing utensils and Neha is washing her clothes. मैं बर्तन धो रही हूँ और नेहा अपने कपड़े धो रही है।

यहाँ पर मेरे द्वारा किया जाने वाला काम और नेहा के द्वारा किया जाने वाला काम एक ही समय में हो रहा है इसलिए Present Continuous tense का use किया गया है।

I hope these two concepts are clear to you now. कुछ key words होते हैं जिनके साथ यह fix हो होता है कि simple present tense ही आएगा या Present Continuous tense. आइए ऐसे words को जानें -

**इन words के साथ Simple Present Tense का use होता है। बोलते समय इसका ख़ास ध्यान रखें -**

always

every ...

often

normally

usually

sometimes

seldom

never

**इन words के साथ Present Continuous Tense का use होता है -**

at the moment

at this moment

now

Nowadays

These days

**3) आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं कि निकट भविष्य के लिए कुछ arranged किया गया है? या आप एक timetable या schedule द्वारा निर्धारित समय का उल्लेख करना चाहते हैं? (Do you want to express that something is arranged for the near future? Or do you refer to a time set by a timetable or schedule?)**

इसे इस तरह से समझिए -

अगर आपकी डॉक्टर से meeting पहले से ही fix है जिसका start होने का time भी fix है तो आप Simple Present Tense का use करेंगे -

My meeting with doctor starts at sharp 11:00 am. डॉक्टर से मेरी मुलाकात सुबह ठीक 11:00 बजे शुरू होती है।

जबकि अगर आप near future के लिए कुछ arrangement कर रहे हैं तो आप Present Continuous का use करेंगे -

I am going to the hospital today for checkup. मैं आज चेकअप के लिए अस्पताल जा रहा हूँ।

यहाँ पर आपका कार्यक्रम पहले से fix नहीं था आपने अभी किया जो भविष्य में होगा - आज होगा जबकि पहले वाक्य में आपको प्रोग्राम पहले से ही एक निश्चित समय के लिए 11:00 am के लिए fix था।

**4) क्या आप अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में बात करना चाहते हैं? या आप इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि कुछ कार्य केवल सीमित (बल्कि कम) समय के लिए चल रहा है? (Daily routine or just for a limited period of time?)**

जब आप अपने daily routine के बारे में बात करते हैं जो आप daily करते हैं तो आप Simple Present Tense का use करेंगे जैसे -

I clean my hands with sanitizer. मैं अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करता हूँ।

(यह काम आप daily करते हैं।)

I am wearing mask now a days. मैं आजकल मास्क पहन रहा हूँ।

यह काम आप कुछ दिनों के लिए ही कर रहे हैं हमेशा के लिए नहीं क्योंकि आपको coronavirus से बचना है।

इसलिए इस वाक्य के लिए आप Present Continuous Tense का use करेंगे।

**कुछ verbs ऐसे हैं जिनका use सिर्फ Simple Present में ही होता है progressive/ Continuous form में नहीं जैसे -**

**state:** be, cost, fit, mean, suit

We are on holiday. हम छुट्टी पर हैं।

**possession:** belong, have

Aishwarya has a private plane. ऐश्वर्या के पास एक प्राइवेट प्लेन है।

**senses:** feel, hear, see, smell, taste, touch

He feels the cold. उसे ठंड लगती है।

**feelings:** hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish

I hate people who doesn't cover their mouth while sneezing. मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो छींकते समय अपना मुंह नहीं ढकते।

**बोलते समय I am hating you, liking you, wanting you गलत English है**

## **Present Perfect Tense**

वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है यह दर्शाने के लिए Present Perfect Tense का प्रयोग किया जाता है।

अन्य शब्दों में जब आप किसी से बात करते हैं और कोई काम जो आपकी बातचीत के पहले हो चुका होता है तथा

आप उस हो चुके काम का जिक्र अपनी बातचीत में करते हैं तो वह Present Perfect Tense का प्रयोग करते हैं।

हिंदी वाक्यों के अंत में 'चुका है', 'चुकी है', 'या है', 'आ है', 'ये हैं' आदि शब्द आते हैं।

**He, she, it और एकवचन noun subject के साथ has और I, you, we, they तथा plural subject के साथ have लगाकर verb की third form लगाते हैं ।**

1. इस tense में helping verb (सहायक क्रिया) have / has होती है।

2. have / has के बाद verb 3rd Form का प्रयोग होता है।
3. अगर subject (कर्ता) singular है तो has, I और plural (बहुवचन) subject के साथ है have का प्रयोग होता है।

### **Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)**

Subject (कर्ता) + have / has + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object

### **Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)**

Subject (कर्ता) + have / has + not + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object

### **Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)**

Has/ Have + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

Wh word + Has/ Have + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

### **Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)**

Has/ Have + Subject (कर्ता) + not + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

### **Present Perfect Continuous Tense**

इस Tense का प्रयोग उस कार्य को बताने के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी यानी वर्तमान समय में भी जारी हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस Tense में हमेशा क्रिया के साथ समय का वर्णन होता है। और यही चीज़ इसे Present Continuous Tense से अलग करती है।

हिंदी में इन वाक्यों के अंत में रहा है /रही है /रहे हैं /रहा हूँ /रहे हों (इतने समय से) आता है।

### **Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)**

Subject (कर्ता) + have / has + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time.

### **Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)**

Subject (कर्ता) + have / has + not + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time.

### **Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)**

Has/ Have + Subject (कर्ता) + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

Wh word + Has/ Have + Subject (कर्ता) + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

### **Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)**

Has/ Have + Subject (कर्ता) + not + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

## **अब जानते हैं Present Perfect Tense और Present Perfect Progressive Tense में अंतर और उनका सही जगह पर use -**

दोनों ही tenses का प्रयोग उन actions को बताने के लिए किया जाता है जो past में शुरू हुई और या तो अभी अभी खत्म हुई है या फिर अभी भी जारी है। कुछ cases में दोनों ही tenses का use सही है पर अक्सर इनके अर्थ में अंतर आ जाता है।

**1) अब आप सोचिए कि यदि आपको बोलना है कि coronavirus की वजह से 1000 लोग मर गए तो इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप बताना चाह रहे हैं कि अभी तक क्या हुआ है, एक तरह से इसका result. इस समय आप use करेंगे Present perfect tense का जो यह बताता है कि action complete हो चुका है (लोग मर चुके हैं)**

1000 people have died due to coronavirus. कोरोनावायरस के कारण 1000 लोग मारे गए हैं/ मर चुके हैं। पर अगर आप अपनी बात में यह बताना चाहते हैं कि कितने समय से यह action चल रहा है तो Present Perfect Progressive Tense का प्रयोग करें।

I have been waiting outside the clinic since morning. मैं सुबह से क्लीनिक के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। इस वाक्य में action (wait करने का) सुबह से start हो गया था (past में) जो अभी भी जारी है, इसका duration बताया जा रहा है, इसलिए Present Perfect Progressive Tense का use किया गया है।

(Result - Present perfect tense और duration - Present Perfect Progressive Tense)

**2) यदि action अभी भी जारी है और हम यह बताना चाहते हैं कि यह एक permanent situation है तो usually Present Perfect tense का उसे करते हैं जैसे -**

I have taught English for 12 years. मैंने 12 साल तक अंग्रेजी पढ़ाई है।

(अभी भी पढ़ा रही हूँ। एक तरह से permanent situation है )

**पर temporary situations के लिए Present Perfect Progressive tense का बेहतर है। जैसे -**

I have been teaching this class for one hour. मैं एक घंटे के लिए इस कक्षा को पढ़ा रहा हूँ।

यह कोई rule नहीं है पर अगर ऐसा किया जाए तो आपकी language में और आप क्या कहना चाहते हैं, उसमें clarity ज्यादा होगी।

**3) Present perfect simple tense का use finished actions को बताने के लिए होता है जैसे -**

The kids have played for 2 hours. बच्चे 2 घंटे तक खेल चुके हैं।

**जबकि present perfect progressive tense बताता है कि action अभी भी जारी है -**

The kids have been playing since morning. बच्चे सुबह से खेल रहे हैं।

**4) जब हमें How much/How many को बताना हो तो present perfect tense का use करना चाहिए जैसे -**

It has taken six years to find the cure of AIDS. एड्स का इलाज खोजने में छह साल लग गए हैं। (

**पर जब हमें How long something has been happening (कब से कुछ हो रहा है) यह बताना है तो**

**present perfect progressive tense का use करना चाहिए जैसे -**

They have been observing this virus for two months. वे दो महीने से इस वायरस की समीक्षा रहे हैं।

दूसरे शब्दों में - present perfect tense में यह बताना चाह रहे हैं कि how much time has past since the last time the action took place और present perfect progressive tense में action को शुरू हुए कितना समय हुआ (since the beginning of the action)

कुछ verbs के साथ usually हम Present Perfect Simple का ही use करते हैं progressive form का नहीं -

**state:** be, have (for possession only)

We have been on holiday for two weeks.

**senses:** feel, hear, see, smell, taste, touch

He has touched the painting.

**brain work:** believe, know, think, understand

I have known him for 3 years.

अब सभी tenses से related कुछ और example देखते हैं

### **SIMPLE PRESENT TENSE**

The sun rises in the east. (सूर्य पूर्व में उगता है।)

New Delhi is the capital of India. (नई दिल्ली भारत की राजधानी है।)

She goes for a walk daily. (वह रोज टहलने जाती है।)

My flight departs tomorrow at noon. (मेरी फ्लाइट कल दोपहर को रवाना होगी।)

He doesn't eat Italian food. (वह Italian खाना नहीं खाता है।)

The bus does not (doesn't) pass through your street. (आपकी गली से बस नहीं गुजरती है।) (does not के साथ s या es का प्रयोग नहीं किया गया है)

We don't play tennis after office each day. (हम हर दिन ऑफिस के बाद टेनिस नहीं खेलते हैं।)

Does the party start at nine? (क्या पार्टी नौ बजे शुरू होती है?)

Whom do you teach in the morning? आप सुबह सुबह किसको पढ़ाते हैं?

Does she not understand English? (क्या वह अंग्रेजी नहीं समझती है?)

### **Present Continuous Tense**

I am listening to the radio. (मैं रेडियो सुन रहा हूँ।)

You're constantly complaining about your boss! (आप अपने बॉस के बारे में लगातार शिकायत कर रहे हैं!)

People are playing PUBG now a days. (लोग आजकल PUBG खेल रहे हैं।)

We are not visiting the museum in the afternoon. (हम दोपहर में संग्रहालय देखने नहीं जा रहे हैं।)

I am not going to the meeting after work. (मैं काम के बाद मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ।)

Are you going? (क्या आप जा रहे हैं?)

When is she going home? (वह घर कब जा रही है?)

What am I doing here? (मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?)

Are they not going to market? (क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं?)

Am I not learning English? (क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ?)

### **Present Perfect Tense**

I have done my homework. (मैं अपना गृहकार्य कर चुका हूँ।)

He has just played football. उसने अभी अभी फुटबॉल खेला है।

She has lived in New Delhi all her life. (वह अपनी पूरी जिंदगी नई दिल्ली में रही है।)

I have not seen that film before. (मैं यह फिल्म पहले नहीं देख चुका हूँ।)

They have not written three letters already. (वे पहले तीन चिट्ठियाँ नहीं लिख चुके हैं।)

Has she forgotten her folder? (क्या वह अपना फोल्डर भूल चुकी है?)

Have I not seen that film before? (क्या मैं यह फिल्म पहले नहीं देख चुका हूँ?)

Has she not lived in New Delhi all her life? (क्या वह अपनी पूरी जिंदगी नई दिल्ली में नहीं रही है?)  
I have seen that film before. (मैं यह फिल्म पहले देख चुका हूँ।)

### **Present Perfect Continuous Tense**

He has been waiting for you all day. (वह सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा है।)

We have been traveling since last December. (हम पिछले दिसंबर से यात्रा कर रहे हैं।)

She has been working in that company for three years. (वह तीन साल से उस कंपनी में काम कर रही है।)

They have not been talking for the last hour. (वे पिछले एक घंटे से बात नहीं कर रहे हैं।)

She has not been working in that company for three years. (वह तीन साल से उस कंपनी में काम कर नहीं रही है।)

Have they not been talking for the last hour? (क्या वे पिछले एक घंटे से बात नहीं कर रहे हैं?)